



आपत्काले रक्षिष्यामि

GIC Re

भारतीय साधारण बीमा निगम

सकल
प्रीमियम

नेट वर्थ

सॉल्वेंसी
अनुपात

₹ 51,030.13 करोड़

₹ 35,425.87 करोड़

1.53

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2020 को समाप्त वर्ष	2019 को समाप्त वर्ष
		(लेखा परीक्षित)	(लेखा परीक्षित)
		31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
1	प्रीमियम आय (सकल)	51,030.13	44,238.00
2	कर पश्चात निवल लाभ/(हानि)	(359.09)	2,224.31
3	चुकता साम्य शेयर पूँजी	877.20	877.20
4	नेट वर्थ (प्रत्यक्ष मूल्य परिवर्तन खाते सहित)	35,425.87	52,765.05
5	कुल परिसंपत्तियाँ	1,16,196.20	1,18,883.57
6	सॉल्वेंसी अनुपात	1.53	2.06

नोट्स:

अ) प्रीमियम आय अर्थात् सकल लिखित प्रीमियम, पुनर्बीमा का सकल और लागू करों का निवल है।

ब) ऊपर उल्लिखित विवरण सेबी (लिस्टिंग और अन्य डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) विनियम, 2015 के विनियम 33 और विनियम 52 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के साथ फाइल किए गए वित्तीय परिणामों के तिमाही तथा वार्षिक के विस्तृत फॉर्मेट का निष्कर्ष है। तिमाही तथा वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत फॉर्मेट स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com HYPERLINK "http://www.bseindia.com/" एवं www.nseindia.com) तथा निगम की वेबसाइट (www.gicofindia.com) पर उपलब्ध हैं।

मंडल निदेशकों के लिए और उनकी ओर से

हस्ताक्षर/-

देवेश श्रीवास्तव

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

स्थान: मुंबई
दिनांक: 24 जून, 2020